



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 265] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 1977/श्रावण 17, 1899

No. 265] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 1977/SRAVANA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

*Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation*

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 8th August 1977

G. S. R. 557(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) (a) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 76-Customs, dated the 18th June 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby, exempts goods falling under the Headings or Sub-headings of the Headings of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in column (2) of the Table hereto annexed [other than those specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table], when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

(1597)

THE TABLE

Sl No	Heading No. or Sub-heading No. of Heading No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Standard rate of duty	Description of the goods to which statutory rates of duty shall apply
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Heading No. 69.09.	60 per cent <i>ad valorem.</i>	Elements made of soft ferrite.
2	Sub-heading No. (1) of Heading No. 84.51/55.	60 per cent <i>ad valorem.</i>	Key boards of following machines, namely, electronic calculating machines, electronic accounting machines and electronic cash registers.
3	Sub-heading No. (2) of Heading No. 85.01.	60 per cent <i>ad valorem.</i>	Electric motors designed to operate in the range of 4.5 volts to 7.5 volts DC, and with current ratings upto 200 milliamperes.
4	Sub-heading No. (3) of Heading No. 85.01.	60 per cent <i>ad valorem.</i>	(i) Ferrite core transformers whose rated output voltage is more than 10 kilovolts ; (ii) Inductors, namely, loading coils for insertion in telephone or telegraph line circuits.
5	Heading No. 85.13.	60 per cent <i>ad valorem.</i>	(i) Parts made of ferrite ; (ii) Parts containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors.
6	Heading No. 85.14.	60 per cent <i>ad valorem.</i>	Microphones and stands therefor ; loudspeakers.
7	Sub-heading No. (1) of Heading No. 85.15.	60 per cent <i>ad valorem.</i>	(i) Parts of Radiotelegraphic and radiotelephonic transmission and reception apparatus containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor device or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors ; (ii) Parts of other wireless transmission apparatus containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors.

(1) १	(2)	(3)	(4)
8	Sub-heading No. (1) of 60 per cent Heading No. 85.18/27. <i>ad valorem</i>		<p>(i) Resistors of power rating upto 20 watts ;</p> <p>(ii) Diodes, transistors and light emitting diodes ;</p> <p>(iii) Electronic microcircuits including monolithic display devices ;</p> <p>(iv) Electronic valves and tubes ; namely,—</p> <p>(a) rectifying valves and tubes upto 2000 volts Peak Inverse Voltage and upto 5 Amperes current rating ;</p> <p>(b) triodes, tetrodes, pentodes or any combination thereof ;</p> <p>(c) cold cathode type and thermionic type which are for use as display devices , and</p> <p>(d) television picture tubes ,</p> <p>(v) Mounted piezo electric crystals including transducers ;</p> <p>(vi) Relays and switches designed for use in circuits upto 100 volts and upto 10 amperes current rating ;</p> <p>(vii) Connectors, namely, plug, and sockets other than those having all the pins or contacts designed for use in circuits of 200 volts and above.</p>

[No. 172/F. No. B 59/3/77-TRU]

बिना मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1977

सांकांमि० 557(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 76—सीमा-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रांत करते हुए, यह सामाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन शीर्ष या उपशीर्षों के अन्तर्गत सम्मिलित और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट [उन से भिन्न जो

उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है। मालो को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है तो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में शीर्ष सं० या उपशीर्ष सं०	शुल्क की मानक दर	माल का वर्णन जिसको कानूनी दरे लागू होगी
1	2	3	4
1	शीर्ष सं० 69.09	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	मुद्दु फ़ैराइट से बने अवयव
2	शीर्ष सं० 84.51, 55 का उप-शीर्ष (1)	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	निम्नलिखित मशीनों के की-बोर्ड अर्थात् इलेक्ट्रानिकी गणना मशीनें, इलेक्ट्रानिकी लेखा मशीनें, इलेक्ट्रानिकी कैलकुलेटर।
3	शीर्ष सं० 85.01 का उपशीर्ष (2)	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	4.5 वोल्ट से 7.8 वोल्ट डी०सी० की रेंज में कार्यकरण के लिए डिजाइन की गई विद्युत मोटर्स और जिनका करंट रेटिंग 200 मिलीएम्पीयर तक हो।
4	शीर्ष सं० 85.01 का उपशीर्ष (3)	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	(i) फ़ैराइट कोटिंगफ़ॉर्मर जिनकी रेटेड आउट पुट वोल्टता 10 किलोवोल्ट से अधिक हो, (ii) इण्डक्टर, अर्थात् टेलीफोन या टेलीग्राफ लाइन परिपथ में लगाए जाने के कायम।
5	शीर्ष सं० 85.13	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	(i) फ़ैराइट के बने भाग (पार्ट) (ii) ऐसे भाग (पार्ट) जिनमें तापीयानिक वाल्व या ट्राजिस्टर या तत्समान अर्धचालक आधान या इलेक्ट्रानिकी माहकरो परिपथ या पेपर-मध्धारित्र (कैपेसिटर) से भिन्न मध्धारित्र हो।

1	2	3	4
6	शीर्ष सं० 95.14	60 प्रतिशत माइक्रोफोन और उनके स्टेड, लाऊड-मुल्यानुसार स्पीकर ।	
7	शीर्ष सं० 85.15 का उपशीर्ष (1)	60 प्रतिशत मुल्यानुसार	(i) रेडियो टेलिग्राफी और रेडियो टेलिफोनी संचरण और रिमोपशन उपकरण के भाग (पार्ट) जिनमे तापायानिक वाल्व या ट्रांजिस्टर या तत्समान अर्धचालक या इलैक्ट्रॉनिकी माइक्रो परिपथ या पेपर साधारित्र (कपेसिटर) से भिन्न साधारित्र हों; (ii) अन्य बेतार पारेपण साधित्रो के भाग (पार्ट) जिनमे तापायानिक वाल्व या ट्रांजिस्टर या तत्समान अर्धचालक साधन या इलैक्ट्रॉनिकी माइक्रो परिपथ या पेपर साधारित्र (कपेसिटर) से भिन्न साधारित्र हों ।
8	शीर्ष सं० 85.18, 27 का उपशीर्ष (1)	60 प्रतिशत मुल्यानुसार	(i) विद्युत प्रतिरोधक 20 वाट तक के रेडिंग वाले, (ii) डायोड, ट्रांजिस्टर तथा प्रकाश फैलाने वाले डायोड; (iii) इलैक्ट्रॉनिकी माइक्रो परिपथ जिनमे मोनोलिथिक प्रदर्शन साधन भी आते है ; (iv) इलैक्ट्रॉनिकी वाल्व और ट्यूब अर्थात् :- (क) विष्टाकारी वाल्व और ट्यूब जिनकी प्रतीपशीखर वोल्टता 2000 वोल्ट तक हो और करेंट रेडिंग 5 एम्पीयर तक हो ; (ख) ट्रायोड, टैट्रोड, पेन्टोड या उनका कोई संयोजन; (ग) शीत कैथोड प्रकार और तापायनिक प्रकार के कैथोड जो प्रदर्शन साधन के रूप में प्रयोग में आते है ; और

1

2

3

4

(घ) टेलिविजन पिक्चर ट्यूब ;

(v) माउन्टेड दाब विद्युत क्रिस्टल जिसमें ट्रांसड्यूसर भी आते हैं ;

(vi) रिले और स्विच जो 100 वोल्टता के परिपथ में प्रयोग के लिए डिजाइन किए गए हों, जिनकी करंट रेटिंग 10 एम्पीयर तक हो ।

(vii) सबेधक (कैनेक्टर), अर्थात्, सब पिनो से युक्त से भिन्न प्लग और साकेट या 200 वोल्ट और उससे अधिक परिपथ के प्रयोग के लिए डिजाइन किए गए कनेक्टर ।

[म० 172 फा०स० बी, 59, 3/77-टी आर यू]

G S.R. 558 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (51 of 1962), and in pursuance of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 266-Cust. M., dated the 2nd August, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest to do, hereby, exempts aluminium manufactures containing more than 97 per cent of aluminium, namely, plates sheets, circles, strips and foil other than etched aluminium foil but including foil in any form or size ordinarily used as parts and fittings of tea chest, falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 27½ per cent *ad valorem*.

[N. 173/F No. B 59 /3/77-TRU]

सा० का० नि० 558 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 51) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना स० 266—सीमा शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिकाृत करने हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 76 के अन्तर्गत सम्मिलित एलुमीनियम की वित्तिमितियों जिनमें 97 प्रतिशत से अधिक एल्यूमिनियम हो, जैसे प्लेटों, चादरो, सर्किलों, पतियों, और पत्रियों को, जिसके अन्तर्गत टी चैस्टो के पुर्जों और फिटिंगों के रूप में सामान्यतया उपयोग में लाई जाने वाली किसी भी रूप और आकार की पत्रिया भी हैं, किन्तु जिसमें एचड एल्यूमिनियम की पत्रिया सम्मिलित नहीं हैं, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्टानुसार उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जो मूल्य के 27½ प्रतिशत से अधिक है ।

[म० 173 फा०स० बी 59 3 77-टी आर यू]

G.S.R. 559(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 286-Customs, dated the 2nd August, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts wireless transmission apparatus and component parts of such apparatus (other than those parts containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors), falling within Chapter 85 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 40 per cent *ad valorem*.

[No 174/F No B 59/3/77-TRU]

सांकां नि० 559(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 286-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 85 के अन्तर्गत सम्मिलित बेतार पारेषण साधित्रों और ऐसे साधित्रों के संघटक भागों (पार्ट) को उन भागों से भिन्न जिनमें तापायानिक बाल्व या ट्राजिस्टर या तत्समान प्रवर्धक या इलेक्ट्रानिकी माइक्रो परिपथ सधारित्र (केपेसिटर), पेपर साधित्र (केपेसिटर) से भिन्न हो। जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 174, फा० सं० बजट 59/3/77-टी आर यू]

G.S.R. 560(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 82-Customs, dated the 18th June, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts paper capacitors falling under sub heading No (2) of Heading No. 85.18/27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 60 per cent *ad valorem*.

[No 175/F No B 59/3/77-TRU]

सांकां नि० 560(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 82-सीमा-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 85.18/27 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत सम्मिलित पेपर सधारित्रों (पेपर कैपेसिटर) को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उस भाग से छूट देती है जो मूल्य के साठ प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 175 फा० सं० बी 59/3/77-टी आर यू]

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 350-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the Schedule to the said notification, for the figures "85.02", the figures and brackets "85.02 (1)" shall be substituted.

[No 176/F. No. B 59/4/77-TRU]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

सा०का०नि० 561(अ).--केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 350-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में "85.02" श्रृंखला के स्थान पर "85 02(1)" श्रृंखला और कोष्ठक रखे जायेंगे।

[सं० 176, फा० सं० बी, 59, 4, 77-टी आर यू]

आर० के० चन्द्र, अवर सचिव।